



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 03 जून 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

एम्स द्वारा आयोजित INI-CET परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एम्स द्वारा पी.जी. में प्रवेश के लिये आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की माँग करती है।

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल स्नातकों से 100 दिनों के लिये कोविड सेवा में सम्मिलित होने का अनुरोध किया था। साथ ही NEET-PG की परीक्षा को 31 अगस्त तक स्थगित करने तथा परीक्षा आयोजित करने से कम से कम 1 माह पूर्व सूचना देने की घोषणा भी की गई थी। साथ ही एम्स के द्वारा भी NEET-PG की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। परन्तु परीक्षा से मात्र 18 दिन पूर्व 16 जून को INI-CET परीक्षा की नई तिथि एम्स के द्वारा घोषित की गई है जिससे छात्र समुदाय में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अतः अभाविप का यह मानना है कि परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उन्हें परीक्षा की तैयारी हेतु कम से कम 30 दिनों का समय उपलब्ध कराया जाए।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, “कोविड महामारी में सेवा दे रहे मेडिकल स्नातकों को अचानक परीक्षा देने के लिये बाध्य करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से अभाविप यह माँग करती है कि INI-CET की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए जिससे परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)